



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

२७ आषाढ़ १९३८ (श०)

(सं० पटना ६०१) पटना, सोमवार, १८ जुलाई २०१६

सं० १४/डी०एल०ए०-एल०ए०एक्ट-प्राधिकार (पदसृजन)-०१/२०१५-१२९१  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।  
द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना-१५, दिनांक २० नवम्बर २०१५

विषय :- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-२०१३ की धारा-६४ के तहत निर्देश मामले (Reference Cases) की सुनवाई हेतु भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल-९० पदों के स्थायी सृजन के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

२. सृजित किये गये पदों का विवरण:-

- I. पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer)- एक पद : - सेवारत/सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।  
(अ०पु०वे०-१६,७५०-२०,५००- पु०वे०-५१,५५०-१,२३०-५८,९३०- १,३८०-६३,०७०)।
- II. प्रधान लिपिक (Head Clerk)- सह-लेखापाल (Accountant)- एक पद (अ०पु०वे०-५,०००-८,०००-पु०वे०-पी०बी०-२- ९,३००-३४,८००-जी०पी०-४,२००)।
- III. उच्चवर्गीय लिपिक (UDC)- दो पद- (एक- Office Clerk, एक- Bench Clerk)  
(अ०पु०वे०-४,०००-६,०००-पु०वे०- पी०बी०-१-५,२००-२०,२००- जी०पी०-२४००)।
- IV. आशुलिपिक (Stenographer)-एक पद-(अ०पु०वे०-४,०००-६,०००-पु०वे०-पी०बी०-१-५,२००-२०,२००-जी०पी०-२४००)।
- V. निम्नवर्गीय लिपिक ( LDC)- दो पद- (अ०पु०वे०-३०५०-४,५९०-पु०वे०-पी०बी०-१-५,२००-२०,२००-जी०पी०-१,९००)।

- VI. कार्यालय परिचारी (Office Attendant)–दो पद–  
(अ0पु0वे0–2,550–3,200–पु0वे0–पी0बी0–1–5,200–20,200–जी0पी0–1,800)–(मैट्रीक उत्तीर्ण)।
- VII. चालक (Driver)– एक पद– (अ0पु0वे0–3050–4,590–पु0वे0–पी0बी0–1–5,200–20,200–जी0 पी0–1,900)।

3. भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रमण्डलों में विभिन्न श्रेणी के उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित पीठासीन पदाधिकारी-1 पद, प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल-1 पद, उच्चवर्गीय लिपिक-2 पद, आशुलिपिक-1 पद, निम्नवर्गीय लिपिक-2 पद, कार्यालय परिचारी-2 पद, चालक-1 पद, यानी 10 पदों की संख्या बल की दर से सभी 09 (नौ) राजस्व प्रमण्डलों में कुल-90 (09X10) पदों का गैर योजना मद में स्थायी सृजन किया गया है।
4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार का गठन राज्य के प्रत्येक 09 प्रमंडलीय मुख्यालयों में किया जायेगा। पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।
5. प्राधिकार के तहत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के सृजित पद समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत होंगे। प्राधिकार में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उस पद के लिए निर्धारित किया गया है।
6. सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों की नियुक्ति की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।
7. इसका व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0001 जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना मांग सं0-40 विपत्र कोड संख्या-एन 2029000010001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
8. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक होंगे। निबंधक (Registrar) के पद के स्थायी सृजन की कार्यवाई अलग से की गई है।
9. सृजित किये जानेवाले पदों की व्यय विवरणी अनुसूची-1 संलग्न है।
10. सृजित किये जानेवाले उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

आदेश से,  
ब्यास जी,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 601-571+250-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>